

Festival of rare films to add grandeur to year-long Satyajit Ray centenary celebrations

Satyajit Ray, one of the greatest film makers of all the time, is credited with taking Indian cinema to the global level. A true renaissance man, Ray earned worldwide fame for himself and to the art of cinema as well, with his poetic realism and cinematic imagination. Continuing with the year-long birth centenary celebrations of the auteur, Films Division is presenting an online film festival, *RayToday*, a curated package of non-feature works by Ray along with films on him and his oeuvre. The festival will be showcased on Films Division website from May 7 to May 9, 2021 for free.

RayToday festival includes, among others, a rare documentary made by him on Nobel laureate, Rabindranath Tagore, the one and only television film by Ray on a short story by Munshi Premchand and the much acclaimed, eponymous biopic by Shyam Benegal. The films scheduled in the festival are:

Sadgati (Satyajit Ray/Doordarshan/52 Mins/1981) - a television film set on rural India which throws light on caste system in society.

Two (Satyajit Ray/Esso World Theatre/15 Mins/1964) - a simple but hard hitting societal commentary on the class struggle shows an encounter between a child of a rich family and a street child, and displays attempts of one-upmanship between kids in their successive display of toys.

Pikoo (Satyajit Ray/French Television/24 Mins/1980) - a touching story of a six year old kid. Ray has beautifully presented the surrounding world of a kid in a innocent manner yet gained an emotional impact.

Ray (Goutam Ghose/Govt. of West Bengal/105 Mins/1999) - a documentary, applauded at the Venice Film Festival in 1999, reveals the multi faceted personality of the Ray beyond just a filmmaker. Voice-over by Ray himself, clippings from his films and moments of Academy award ceremony are some of elements that make the film more than a biopic.

Sukumar Ray (Satyajit Ray/ Govt. of West Bengal/ 29 Mins/1987) - Ray made this film as a tribute to celebrate the centenary of his father and famous writer, Sukumar Ray.

Bala (Satyajit Ray/NCPA/33 Mins/1976) - a documentary that portrays the life of renowned dancer of Bharata Natyam, Balasaraswati. It is one of the rarest documentation of her performance.

The Inner Eye (Satyajit Ray/ Films Division /20 Mins/ 1972) - a film that depicts the life and works of Benode Behari Mukherjee, one of the pioneers of modern Indian art who took up murals as a mode of artistic expression while remaining as a key figure in contextual modernism.

Rabindranath Tagore (Satyajit Ray/Films Division/54 Mins/1961) - the documentary shows the life of the greatest Bengali talent of all time, Rabindranath Tagore. It highlights the contribution of Tagore, his work in Bengali literature, poetry and painting along with formation of Visva-Bharati University.

: 2 :

Creative Artists of India : Satyajit Ray (B.D. Garga/Films Division/14 Mins/1974) - one of the early documentaries on Satyajit Ray where the world-renowned film-maker narrates the process of his film making.

Satyajit Ray (Shyam Benegal/Films Division/132 Mins/1985) - over the course of two years, well-known film maker Shyam Benegal interviewed Satyajit Ray about his career and his vision behind filmmaking, resulting in the well-researched biopic on the legend.

Feluda – 50 years of Ray Detective (Sagnik Chatterjee/111 Mins/2019) - Felu alias Pradosh Chandra Mitter is one of the most popular fictional detective in India who turned 50 in the year of 2017. The documentary contains literary references of Feluda films, interviews of onscreen Feluda and other characters.

Films Division acknowledges the contribution of NCPA, Govt. of West Bengal, Ray Society, Esso World Theatre, French Television, Doordarshan, NFDC and Sagnik Chatterjee for screening permission and also help of screening partners like educational institutions, film schools and societies, zonal cultural centers, MEA and others for helping to take Ray works and legacy to the nook and corner of the country and abroad.

To experience the opus of Ray, the *Poet of Indian Cinema*, join Films Division by logging on to <https://filmsdivision.org>/Documentary of the Week and by spreading the word among cineastes and loved ones.

भारतीय सिनेमा को नई ऊँचाई देने के साथ वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा की कीर्ती को पहुँचाने का श्रेय निश्चित रूप से मास्टर फिल्ममेकर सत्यजीत रे को जाता है। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, फिल्म प्रभाग तीन दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव "#RayToday" प्रस्तुत कर रहा है - इस पैकेज में सत्यजित रे निर्देशित एवं उनपर बनाई गयी नॉन-फिचर फिल्मों का समावेश है। "#RayToday" में वृत्तचित्र/ लघु चित्र तथा टेलीविजन श्रृंखला का अनोखा पैकेज है- यह 7 मई से 9 मई, 2021 तक फिल्म प्रभाग की वेबसाइट पर प्रसारित होगा।

"#RayToday" में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर पर चित्रित वृत्तचित्र, सद्गती नामक एक टेलिविजन फिल्म जो मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा पर आधारित है, के साथ विख्यात फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की बहुप्रशंसित बायोपिक, सत्यजीत रे जैसे कई फिल्मों शामिल हैं।

"#RayToday" में स्क्रीनिंग होनेवाली फिल्में-

सद्गती (निर्देशक- सत्यजित रे/52 मिनट /1981) ग्रामीण भारत की पार्श्वभूमि पर आधारित यह फिल्म सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा पर आधारित टेलिविजन श्रृंखला है।

दू (निर्देशक- सत्यजित रे/15 मिनट /1964) एक अमीर घर के लड़के और एक गरीब घर का लड़के के बीच होनेवाली टकराव की कहानी है, जिसे परिणामकारक तरीके से चित्रित की गई है।

पीकू (निर्देशक- सत्यजित रे /24 मिनट /1980) यह कहानी एक 6 साल के बालक की है। एक बालक के दृष्टिकोण से दुनिया को पेश करने का काम, निर्देशक रे ने बहुत ही सरलता से और बखुबी निभाया है।

रे (निर्देशक -गौतम घोष /105 मिनट /1999) व्हेनिस फिल्म महोत्सव, 1999 में सराही गयी यह फिल्म सत्यजित रे की बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है।

सुकुमार रे (निर्देशक- सत्यजित रे /29 मिनट /1987) अपने पिता एवं जानेमाने लेखक सुकुमार रे की जन्म शताब्दी के मौके पर रे ने यह फिल्म का निर्माण किया था।

बाला (निर्देशक- सत्यजित रे /33 मिनट /1976) यह फिल्म सुप्रसिद्ध भरत नाट्यम नृत्यांगना बालसरस्वती, जो बाला नाम से जानी जाती थी उन के जीवनी पर आधारित है।

द इनर आय (सत्यजित रे /20 मिनट/ 1972) - यह फिल्म सुप्रसिद्ध बंगाली चित्रकार बिनोड बिहारी मुखर्जी की जीवनी पर आधारित है | विश्व भारती विश्वविद्यालय में मुखर्जी अध्यापक थे, उन्होंने अंध होने के बावजूद अपनी कलादृष्टी से भारतीय मॉडर्न कला में अपना योगदान दिया, इस पर यह फिल्म प्रकाश डालती है।

रवींद्रनाथ टैगोर (निर्देशक-सत्यजित रे /54 मिनट /1961) सुप्रसिद्ध बंगाली व्यक्तित्व रवींद्रनाथ टैगोर पर चित्रित यह फिल्म उनके साहित्य- संगीत- कविता के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालती है।

: २ :

क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट ऑफ इंडिया : सत्यजित रे (निर्देशक - बी.डी. गर्ग /14 मिनट/1974) यह सत्यजित रे पर बनाई गई पुरानी वृत्तचित्रों में से एक है, जो उनके फिल्म निर्माण की कला के बारे में चर्चा करती है।

सत्यजित रे (निर्देशक- श्याम बेनेगल /132 मिनट /1985) सुप्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल ने सत्यजित रे के साथ लगभग दो वर्ष तक उनके साथ उनके कैरियर, फिल्म निर्माण की प्रेरणा एवं विचार के बारे में चर्चा की, जिसके परिणाम-स्वरूप यह फिल्म निर्मित है।

फेलुदा- रे डिटेक्टिव के 50 साल (निर्देशक- साग्निक चॅटर्जी /111 मिनिट /2019) फेलु अर्थात प्रदोष चंद्र मित्तर् नामक साहित्य के मशहूर कॅरेक्टर ने 2017 में पचास साल पूरे किए, इस अवसर पर बनाई यह फिल्म इस किरदार के अभी तक के सफर का जायजा लेती हैं।

फिल्म उत्सव #RayToday के लिए, फिल्म प्रभाग अपने सहयोगी भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC), नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA), दूरदर्शन, पश्चिम बंगाल सरकार, रे सोसाइटी जैसे भागीदारों के साथ मिलकर, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, फिल्म स्कूलों, फिल्म क्लबों , क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से देश के हर कोने में रे के योगदान को सर्वदूर पहुंचाने का प्रयास करेगी ।

इसके अलावा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा उनके मिशन एवं दूतावास के माध्यम से #RayToday को विदेश में स्थित सिनेप्रेमीयों तक पहुंचाने का भी प्रयास करेगी ।

"भारतीय सिनेमा के कवि: सत्यजीत रे" को अनुभव करने तथा रे-युग के सदाबहार वृत्तचित्रों का आनंद लेने के लिए फिल्म प्रभाग की वेबसाइट यानी <https://filmsdivision.org/> 'डॉक्यूमेंट्री ऑफ द वीक' पर इसका अनुसरण करें तथा अपने सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ इस फिल्मोत्सव को साझा करें ।